

May 3, 2023

<b>The Secretary, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001</b>	<b>Asst. Vice President, National Stock Exchange of India “Exchange Plaza”, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051</b>
<b>Scrip Code: 532529</b>	<b>Scrip Symbol: NDTV</b>

**Sub: Submission of Newspaper Publication of Audited Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2023**

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, copies of the newspaper publication for Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company, for the quarter and financial year ended March 31, 2023, published on May 3, 2023 in the following newspapers:

- Financial Express;
- Jansatta.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours sincerely,

For New Delhi Television Limited



**Parinita Bhutani Duggal**  
**Company Secretary and Compliance Officer**

**Encl.: As above**

# Unemployment rate rises to 4-month high

Prior to April, the rate was at a high of 8.3% in Dec '22

FE BUREAU  
New Delhi, May 2

**JOBLESSNESS, AS MEASURED by the CMIE all-India unemployment rate, rose to a four-month high of 8.11% in April with more people joining the workforce in the month.**

The all-India unemployment rate was lower at 7.8% in March.


The all-India unemployment rate has been rising steadily since February this year.

Prior to April, the unemployment rate was at a high of 8.3% in December 2022.

According to the data, urban unemployment rate rose to 9.81% in April from 8.51% in March.

Rural unemployment rate, however, declined marginally to 7.34% in April from 7.47% in March.

## RURAL JOBS TICK UP



Source: CMIE

in March.

Mahesh Vyas, MD and CEO, CMIE, said the unemployment rate in April rose due to an increase in the labour participation rate.

"The significant increase in LPR in April to 41.98% from 39.77% in March indicates more people joining the workforce due to possibly more optimism about finding

employment," he told FE.

Recent payroll data from the EPFO has also indicated that first-time entrants to the scheme has been on a downward trajectory amidst continued layoffs in the tech sector and a cautious outlook by most firms on hiring.

In February, 0.73 million first time entrants joined the scheme.

# Food ministry asks retailers to cut prices of edible oil

Cites sharp fall in global prices & robust domestic oilseed production

SANDIP DAS  
New Delhi, May 2

**THE FOOD MINISTRY** has asked retailers of edible oil to reduce prices, citing the sharp fall in global prices of palm, soyabean and sunflower oils and bumper production of domestic oilseeds, such as mustard, groundnut and soyabean this season.

"While most of the brands have reduced prices in the past, still the prevailing maximum retail prices (MRP) of the packed edible oil in the market is not in line with the current prices in the international market,"

According to a food ministry communication, while urging members of the Solvent Extractors Association (SEA) to reduce MRP of edible oil and pass on the benefits to consumers, the ministry has stated "the prices of edible oil in the domestic market seem to be on a high, considering the prevailing market scenario".

According to the department of consumer affairs data, retail prices of edible oils such as groundnut and palm oil on Tuesday remained unchanged at ₹185/litre and ₹105/litre, respectively during the last three months.

Retail prices of mustard oil declined by around 9% to ₹150/litre on Tuesday from prices prevailing three months ago. The landed prices of palm oil (at Mumbai port), which has close to 60% share in the country's import basket, declined by 44% to ₹1,000/tonne on April 28 this year, against the \$1,791/tonne that prevailed a year ago. Landed prices of crude soy and sunflower oil have declined by 50% and 55% to \$960/tonne and \$990/tonne, respectively.



Landed prices of crude soy and sunflower oil have declined by 50% and 55% to \$960/tonne and \$990/tonne

According to a food ministry communication, while urging members of the Solvent Extractors Association (SEA) to reduce MRP of edible oil and pass on the benefits to consumers, the ministry has stated "the prices of edible oil in the domestic market seem to be on a high, considering the prevailing market scenario".

According to the department of consumer affairs data, retail prices of edible oils such as groundnut and palm oil on Tuesday remained unchanged at ₹185/litre and ₹105/litre, respectively during the last three months.

Retail prices of mustard oil declined by around 9% to ₹150/litre on Tuesday from prices prevailing three months ago. The landed prices of palm oil (at Mumbai port), which has close to 60% share in the country's import basket, declined by 44% to ₹1,000/tonne on April 28 this year, against the \$1,791/tonne that prevailed a year ago. Landed prices of crude soy and sunflower oil have declined by 50% and 55% to \$960/tonne and \$990/tonne, respectively.

The retail inflation in oil and fats categories declined by 7.86% in March 2023 year-on-year. For mustard oil, prices declined by 14.5% last month. Inflation in refined oil (sunflower, soyabean and palm) also declined by 10.93% in March, 2023.

# Module import curbs to hit solar projects

ABHINAV KUMAR  
Ahmedabad, May 2

**WHILE INDIA AIMS** to install a renewable energy (RE) capacity of 500 GW by 2030, a section of solar developers are worried over the Approved List of Modules and Manufacturers (ALMM), making it impossible to import cheaper modules. Speaking to FE, Sunil Bansal, president, Rajasthan Solar Association (RSA), said the decision to impose Basic Custom Duty on PV Cells and PV Modules was "ill-conceived".

Only Indian companies have been listed under ALMM, making it impossible to import cheaper modules. Speaking to FE, Sunil Bansal, president, Rajasthan Solar Association (RSA), said the decision to impose Basic Custom Duty on PV Cells and PV Modules was "ill-conceived".

India's RE plan for 2030 includes solar energy of 280GW, and 40 GW of this will come from Grid Connected Solar Rooftop Programme and 30.8 GW under Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhayan by 2026. The steep levy of duties has impacted plans of commissioning solar plants because of which many plants became unviable. "Even the rooftop scheme and Indian firms are performing badly across the states because the government has not taken into consideration the demands of all stakeholders," Bansal alleged.

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

# Higher pension: EPFO extends due date for filing applications

SURABHI  
New Delhi, May 2

**IN A RELIEF** to many pensioners and subscribers, the Employees' Provident Fund Organisation on Tuesday extended the last date for submitting the application for higher pension to June 26.

The earlier deadline was May 3.

"Many representations have been received from various quarters seeking extension of time. This issue has been considered and it has been decided that in order to provide a larger window of opportunity and in order to enable all eligible persons to file their applications, the timeline for filing applications would now be till June 26, 2023," the EPFO said on Tuesday. It has already received over 1.2 million applications from members for higher pension under the Employees' Pension Scheme till date.

"The timeline is being



extended to facilitate and provide ample opportunity to the pensioners and members so as to ease out any difficulty being faced by them," the EPFO further said, adding that this has been decided after sympathetically considering the various demands received from employees, employers and their associations.

This is the second extension given by the EPFO as the original due date was March 3.

Following the Supreme

Court ruling in November last year, the EPFO had issued the procedure for applying for higher pension under the Employees' Pension Scheme under the joint option. In its order, the Supreme Court had given a four-month window to eligible employees to apply for higher pension. However, since the EPFO came out with the guidelines close to the end of the four month period, it had decided to extend it by another two months.

FE BUREAU  
New Delhi

**CHINA AND INDIA** will drive Asia's economic growth in 2023, making Asia-Pacific the "most dynamic of the world's major regions," the International Monetary Fund (IMF) said on Tuesday, while projecting the region's growth in the year at 4.6%.

It, however, urged central banks in the region, including India, to keep monetary policy tight to bring down inflation.

"The costs of failing to bring inflation below target are likely to outweigh any benefits from keeping monetary conditions loose," the IMF said, while reiterating the advice of key central

banks in Asia, excluding Japan and China. "Insufficient tightening in the short term would require disproportionately more monetary tightening later to avoid high inflation becoming ingrained, making a larger contraction more likely," the multilateral agency warned. The reopening of China's economy—

# IMF asks RBI, other Asian central banks to keep policy tight



which is seen to grow at 5.2% in 2023—will be pivotal for the region with the spillover to Asia seen focused on consumption and service-sector demand rather than investment, the IMF said, in its regional economic outlook report. On April 11, the IMF had lowered its growth forecasts for India for the cur-

rent fiscal year and the next by 20 ps and 50 ps, to 5.9% and 6.3% respectively. Sticking to these projections, it has now said growth in the rest of Asia is also expected to bottom out this year. IMF's latest India forecast is broadly in line with the cuts in its global growth forecasts for 2023 and 2024 by 10 ps each to 2.8% and 3%.

Of course, India will still be the fastest growing major economy during the forecast period. But the IMF cut next year's Asian growth forecast by 20 ps to 4.4%, and warned of risks than expected inflation, slowing global demand as well as the impact of US and European banking sector stress.

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

Commenting on grid connection and energy trade, Bansal said, "building a national grid is one thing but there is no enthusiasm for buying the excess power. Even the Net Metering system is allowed for connections up to 500 KW only, beyond that all the consumption and production is on a real-time basis."

**New Delhi Television Limited**  
CIN: L92111DL1988PLC033099  
Regd. Off: B-50-A, 2nd Floor, Archana Complex, Greater Kailash - I, New Delhi - 110048  
Phone: 01-11-4157777, 444 6666 Fax: 2923 1740  
E-mail: corporate@ndtv.com; Website: www.ndtv.com

**Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2023**  
(Rs. in Lakhs except per share data)

Particulars	Standalone		Corresponding 3 months ended (31/03/2022) in the previous year	Consolidated		Corresponding 3 months ended (31/03/2022) in the previous year
	3 months ended (31/03/2023)	Current year ended (31/03/2023)		3 months ended (31/03/2023)	Current year ended (31/03/2023)	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total income from operations (net)	4,164	22,065	5,822	6,696	38,586	10,380
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary Items)	(731)	1,617	1,778	(1,361)	4,728	2,806
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	335	2,883	1,778	(185)	5,904	2,806
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	335	2,861	1,778	59	4,874	2,416
Total Comprehensive Income for the period	329	2,818	1,830	37	4,804	2,520
Equity share capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
Other equity	-	34,788	-	-	25,383	-
Earning Per Share (of Rs. 4/- each) (for continuing and discontinuing operations)						
Basic:	0.52	4.44	2.76	0.09	7.56	3.75
Diluted:	0.52	4.44	2.76	0.09	7.56	3.75

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), and on the Company's website, [www.ndtv.com](http://www.ndtv.com).

Place: New Delhi  
Date: 01 May 2023

For New Delhi Television Limited  
Director  
Senthil Sinniah Chengalvarayan

**DELHI / GURGAON**  
FOR INDUSTRIAL PROPERTY  
SALE/RENT  
UDYOG VIHAR  
PACE CITY  
INFOCITY  
IMT MANESAR  
BAWAL  
PLOT & BUILDING FOR SALE  
1000, 4000 sq. mtr, 2 Acre, 5 Acre, 10 Acre  
BUILDING FOR RENT  
25 000 to 50 000 Sq.ft.  
100 000 to 200 000 Sq.ft.  
LAND FOR SALE  
DELHI TO MUMBAI NEW HIGHWAY  
10 Acre to 50 Acre & More  
SAYA ESTATE (Waresh Kumar)  
9810235126

**NTPC Limited**  
Empower Our Corporate Governance  
NTPC Limited is India's largest integrated energy company with installed capacity of 22,304 MW and has prominence in the entire spectrum of the power generation business. Commensurate with our country's growth challenges, NTPC has embarked upon an ambitious plan to attain a total installed capacity of 130 GW by 2032.  
NTPC is looking for Executives in the function of Company Secretary at the following levels:  
1. General Manager (E8 Level) - 01 Post  
2. Deputy General Manager (E7 Level) - 01 Post  
3. Assistant Officer (E0 Level) - 02 Posts  
Required Qualification: Member of ICSI (Institute of Company Secretaries of India)  
How to Apply:  
Interested candidates should log on to our website [careers.ntpc.co.in](http://careers.ntpc.co.in) or visit careers section at [www.ntpc.co.in](http://www.ntpc.co.in) for viewing the eligibility criteria, experience requirement, full text of the advertisement and for applying. Only online mode of application will be accepted. The online application portal will remain open from 05.05.2023 to 19.05.2023. Any further addendum/corrigendum/updates will only be published on our website.  
NTPC Limited  
Head Office: NTPC Bhawan, 202/Complex-1, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003 (GATEWAY TO KNOWLEDGE, TRANSPARENT, BLENDED-REVENUE)  
Head Office: 011-26100000 | Fax: 011-26100001 | Email: [hr@ntpc.co.in](mailto:hr@ntpc.co.in) | [www.ntpc.co.in](http://www.ntpc.co.in)

**PERA CET-2023**

**IMPORTANT DATES**

<b>Last Date of Application</b> 20 <sup>th</sup> May 2023	<b>PERA CET Test Dates</b> 25 <sup>th</sup> , 26 <sup>th</sup> , 27 <sup>th</sup> May 2023	<b>Result Declaration</b> 02 <sup>nd</sup> June 2023
--	---	---

Preeminent Education & Research Association (PERA) is an esteemed federation of State Private Universities in Maharashtra. To seek admissions into the Member Universities of PERA, an online Common Entrance Test (PERA CET-2023) is scheduled across India for the following Professional Programs.

**UG & PG PROGRAMS**

Engineering | Bioengineering | Food Technology  
Marine Engg. | Agri. Engg. | Pharmacy | Fine Arts  
Design | Management | Law | Education  
Architecture (M. Arch / M. Plan)

Apply Online : [www.peraindia.in](http://www.peraindia.in)

**MEMBER UNIVERSITIES**

<a href="http://mgmu.ac.in">mgmu.ac.in</a>	<a href="http://mituniversity.ac.in">mituniversity.ac.in</a>	<a href="http://vopune.ac.in">vopune.ac.in</a>	<a href="http://sanjayghodawatuniversity.ac.in">sanjayghodawatuniversity.ac.in</a>
<a href="http://sandipuniversity.edu.in">sandipuniversity.edu.in</a>	<a href="http://sau.edu.in">sau.edu.in</a>	<a href="http://sppu.ac.in">sppu.ac.in</a>	<a href="http://mitwpu.edu.in">mitwpu.edu.in</a>
<a href="http://dyppu.ac.in">dyppu.ac.in</a>	<a href="http://dyppuniversity.edu.in">dyppuniversity.edu.in</a>	<a href="http://www.dypatlu.org">www.dypatlu.org</a>	<a href="http://sbup.edu.in">sbup.edu.in</a>
<a href="http://adypu.edu.in">adypu.edu.in</a>	<a href="http://vijaybhoomi.edu.in">vijaybhoomi.edu.in</a>	<a href="http://somaiaa.edu.in">somaiaa.edu.in</a>	<a href="http://nicmar.ac.in">nicmar.ac.in</a>
<a href="http://pcu.edu.in">pcu.edu.in</a>	<a href="http://drpau.edu.in">drpau.edu.in</a>	<a href="http://flame.edu.in">flame.edu.in</a>	<a href="http://jspmuni.edu.in">jspmuni.edu.in</a>

PERA  
[www.peraindia.in](http://www.peraindia.in)

info@peraindia.in  
96 06 04 69 68

Follow us: [Facebook](https://www.facebook.com/peraindia) [Instagram](https://www.instagram.com/peraindia) [YouTube](https://www.youtube.com/peraindia) [LinkedIn](https://www.linkedin.com/peraindia)

